



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 143]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, फरवरी 7, 2002/माघ 18, 1923

No. 143]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2002/MAGHA 18, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2002

का.आ. 175(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना सं० का.आ. 660 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 1996 और अधिसूचना सं. का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 पर झारखंड राज्य में बरवा अड्डा (398.75 कि.मी.) से बारकर (441.44 कि.मी.) तक का खंड और पश्चिमी बंगाल राज्य में बारकर (441.44 कि.मी.) से पानागढ़ (512.4 कि.मी.) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था,

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3 और नियम 9 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त राजमार्ग पर 398.75 कि.मी. से 512.4 कि.मी. (113.65 कि.मी.) के उक्त भाग के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उदगृहीत और संदत्त की जाएंगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2003 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

398.75 कि.मी. से 512.4 कि.मी. (झारखंड राज्य में 398.75 कि.मी. से 441.44 कि.मी. और पश्चिमी बंगाल में 441.44 कि.मी. से 512.4 कि.मी.) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के उपयोगकर्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें ।

क्रम सं० यान का प्रकार 31 मार्च, 2003 तक एक प्रतिफेरा के
संबंध में यान के लिए फीस की दर (रुपए)

1.	कार/जीप/वैन	50.00
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	90.00
3.	ट्रक/बस और भारी निर्माण मशीनरी	180.00

टिप्पण 1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को पार करना पड़ता है तो उपयोगकर्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही खंड पार करते समय उपर्युक्त दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे या यदि यान को संपूर्ण मास में अथवा उससे आगे लंबी अवधि के लिए लगातार और प्रायः बार बार उक्त भाग का प्रयोग करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दर के तीस गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्रदान की गई है, अर्थात् :-

- (i) रक्षा यान,
- (ii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,
- (iii) पुलिस यान,
- (iv) अग्नि शमन यान,
- (v) एम्बुलेंस,
- (vi) अन्त्येष्टि यान
- (vii) डाक और तार विभाग के यान, और
- (viii) केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान

3. शासकीय रूप से निम्नलिखित से संबंधित यान, अति महत्वपूर्ण प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) भारत के राष्ट्रपति,

- (ii) भारत के उप राष्ट्रपति,
- (iii) राज्यपाल/उप राज्यपाल/कार्यकारी पार्षद,
- (iv) केंद्रीय और राज्य मंत्री,
- (v) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों में प्रतिपक्ष के नेता जिन्हें मंत्रिमंडल सदस्य की प्राप्ति प्राप्त हो,
- (vi) केंद्रीय और राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या सभापति,
- (vii) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,
- (viii) सी डी प्रतीक वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,
- (ix) संसद सदस्य, और
- (x) अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में राज्य विधान सभा/परिषद के सदस्य

4. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी० आगे, पथकर चौकी से 100 मी० आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो सके ।

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-37011/78/2001-पीआईसी]

सी. सी. भट्टाचार्य, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2002

S.O. 175(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing)'s number S.O. 660(E), dated the 27th September, 1996, and S.O. 78(E) dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretches from Barwa Adda (Km. 398.75) to Barkar (Km. 441.44) in the State of Jharkhand, and the stretches from Barkar (Km. 441.44) to Panagarh (Km. 512.4) in the State of West Bengal on the National Highway No.2 to the National Highways Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 9 of the National Highways

(Fees for the use of National Highway Section and permanent Bridge – Public Funded Project) Rules, 1997, and rule 3 of the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997 the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of the said stretch from Km. 398.75 to Km. 512.4 (113.65 km.) on the said Highway at the rates specified in the Schedule annexed hereto and authorises the National Highways Authority of India to collect and retain fees at the rate specified in the said Schedule from the date of the publication of this notification in the Official Gazette to the 31st March, 2003.

SCHEDULE

Rate of Fee to be recovered from the users of stretch between Km. 398.75 to Km. 512.4 (Km. 398.75 to Km. 441.44 in Jharkhand State and Km. 441.44 to Km. 512.4 in West Bengal) Section of NH-2.

Sl.No.	Type of Vehicle	Fee rate for vehicle for one way trip upto 31 st March, 2003 (Rs.)
1.	Car/Jeep/Van	50.00
2.	Light Commercial Vehicle	90.00
3.	Truck/Bus and Heavy construction machinery	180.00

Notes 1. When the same vehicle has to cross the Sections of the aforesaid National Highway more than once a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the Section in the first trip itself or if the vehicle has to use the said Section continuously and quite frequently for entire month or even beyond that for much longer period, the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equivalent to thirty times single rate applicable to it, as specified in the aforesaid Schedule.

2. The following vehicles are exempted from the fee specified above in the Schedule, namely:-

- (i) Defence vehicles,
- (ii) Vehicles with Very Important Person symbols,
- (iii) Police Vehicles,
- (iv) Fire fighting vehicles,
- (v) Ambulances,
- (vi) Funeral Vans,
- (vii) Post and Telegraph Departments vehicles, and
- (viii) Central and State Government vehicles on duty.

3. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:-

- (i) President of India,
- (ii) Vice President of India,
- (iii) Governors/Lt. Governors/Executive Councilors,

- (iv) Central and State Ministers,
- (v) Leaders of Opposition of Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislature having the status of Cabinet Minister,
- (vi) Speakers or Chairmen of Central and State Legislatures,
- (vii) Foreign dignitaries on State visit to India, and
- (viii) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD symbols,
- (ix) Members of Parliament, and
- (x) Members of State Legislative Assemblies/Councils within their respective Constituencies.

4 The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500m ahead of the toll booths, 100m ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards

[F No RW/NH-37011/78/2001-PIC]

C C BHATTACHARYA, Director General (Road Development) and Addl Secy

